



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 1982/फाल्गुन 10, 1903

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 1982/PHALGUNA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1982

अ० आ० 6(अ).—राष्ट्रपति ने तारीख 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिए चार सदस्य निर्वाचित कर दें,

अ०, अ०, निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तारीखें नियत करता है:—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख 8 मार्च, 1982 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की सविदा की तारीख 9 मार्च, 1982 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 11 मार्च, 1982 (बुधवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा 19 मार्च, 1982 (शुक्रवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व मतदान पूरा कर लिया जाएगा 25 मार्च, 1982 (बुधवार)

[सं० 318/82(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st March, 1982

O.N. 6(E).—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India on the 1st March, 1982 called upon the members of the Legislative Assembly of Gujarat State to elect to the Council of States four members from that State;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

(a) 8 March, 1982 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) 9 March, 1982 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 11 March, 1982 (Thursday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 19 March, 1982 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken; and

(e) 25 March, 1982 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/82(1)]

अ० आ० 7(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तारीख 1 मार्च, 1982 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में गुजरात राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले

द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।

[सं० 318/82(2)]

O.N. 7(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 1.00 p.m. as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the biennial elections to the Council of States from the State of Gujarat to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 1st March, 1982.

[No. 318/82(2)]

अ०आ० 8(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, गुजरात सरकार के परामर्श से, तारीख 1 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उक्त राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए श्री टी०एम० बारोट, उपसचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गांधीनगर को रिटर्निंग आफिसर के रूप में परामर्शित करता है।

[सं० 318/82 (3)]

O.N. 8(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Gujarat hereby designates Shri T. S. Barot, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar to be the Returning

Officer in respect of the biennial election to the Council of States to be held in the State in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 1st March, 1982.

[No. 318/82(3)]

अ०आ० 9(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, श्री के०एम० पांचाल, अवर सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गांधीनगर, को तारीख 1 मार्च, 1982 की अपनी अधिसूचना सं० 318/82(3) द्वारा गुजरात राज्य के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए नियुक्त करता है।

[सं० 318/82(4)]

के० गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri K. M. Panchal, Under Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar, to assist the Returning Officer, appointed vide Commission's Notification No. 318/82(3), dated the 1st March, 1982, for the State of Gujarat, in the performance of his functions.

[No. 318/82(4)]

K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India.